

# गीता विद्या मंदिर में माननीय SDM जी के कर कमलों द्वारा हुआ ATAL TINKERING LAB का लोकार्पण

गोहाना: गीता विद्या मंदिर गोहाना के प्रांगण में आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर निति आयोग, भारत सरकार एवं गीता विद्या मंदिर, गोहाना के संयुक्त प्रयास द्वारा स्थापित ATAL TINKERING LAB के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गोहाना के उपमंडल अधिकारी (SDM) श्रीमान आशीष कुमार जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। यह लैब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन बच्चों के लिए सपना था जो कि मोटी - मोटी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकते परन्तु तकनीकी कार्य बड़ी निपुणता से कर लेते हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए गीता विद्या मंदिर गोहाना ने नीति आयोग, भारत सरकार की सहायता से अपने एवं आस - पास के समाज/विद्यालयों के विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान का अर्जन करने एवं इस ज्ञान को सकारात्मक दिशा देने के लिए यह लैब समाज को अर्पित की है। इसके ज्ञान से बच्चे अपने सामाजिक जीवन में आने वाली दैनिक समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। जिन बच्चों की रुचि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में है उन्हें इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा। सर्वप्रथम प्राचार्य डॉ० संतोष कुमार जी ने माननीय मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता - श्रीमान हेम चन्द्र जी (राष्ट्रीय संगठन मंत्री -विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान) एवं कार्यक्रम अध्यक्ष - माननीय एडवोकेट रामकुमार जी मित्तल (अध्यक्ष - विद्यालय प्रबंध समिति) का सभी उपस्थित गणमान्य आमंत्रित आचार्यों से परिचय करवाया एवं ATL लैब के मत्त्व के बारे में बताया। उन्होंने गोहाना के सभी साइंस आचार्यों को कहा कि आप अपने विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों के साथ किसी भी समय आकर कोई भी नया प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके पश्चात् chemistry की प्रवक्ता श्रीमती सरिता भारद्वाज ने ATL लैब के उद्देश्य एवं लक्ष्य में विस्तारपूर्वक प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी को अवगत कराया। माननीय SDM जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो ज्ञान इस ATL लैब से हमारे विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर मिल सकता है वह ज्ञान हमें कॉलेज और university लेवल पर जाकर मिलता था। आधुनिक समाज के बच्चे बहुत मेधावी और रचनात्मक गतिविधियों से ओत - प्रोत हैं इसलिए इन बच्चों की प्रतिभा को उभाकर सही दिशा में ले जाने में यह लैब सर्वश्रेष्ठ

साबित होगी | उन्होंने सभी आचार्यों को शिक्षक दिवस की शुभकामनायें देते हुए कहा कि आप लोग शिक्षा के माध्यम से जीवन का सबसे पवित्र कार्य कर रहे हैं जितना भला एक बालक का उसका अध्यापक कर सकता है शायद ही कोई अन्य करे | लेकिन बच्चों को भी सफलता तभी मिलेगी जब वे अपने अध्यापकों का पूरे मन से आदर करेंगे | इन्हीं प्रयासों से शिक्षक दिवस का उद्देश्य स्वतः ही सिद्ध हो जायेगा |

जब सभी ने विद्यार्थियों द्वारा कड़ी मेहनत से तैयार किए गये प्रदर्श एवं प्रयोग देखे तो बस देखते ही रह गये | चारों ओर वैज्ञानिक वातावरण प्रतीत हो रहा था |

मुख्य वक्ता जी ने एक प्रसंग के द्वारा युवा पीढ़ी में बढ़ रहे रचनात्मक प्रयोग से यह बताया कि हमारे देश में मेधावी छात्रों की कमी नहीं है परन्तु इन्हें सही दिशा- निर्देश और मार्गदर्शन न मिलने से इनके ज्ञान को बढ़ावा नहीं मिलता | ऐसे बच्चों को देखते हुए माननीय अटल जी ने यह सपना देखा जिसे गीता विद्या मंदिर ने पूरा करने के लिए आज पहला कदम बढ़ाया है | विद्यालय की छात्रा बहनों द्वारा गए गये मनमोहक समूहगान “मनुष्य तू बड़ा महान है” की प्रस्तुति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी | अंत में माननीय अध्यक्ष जी ने सभी आमंत्रित अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद किया और सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनायें दी |

विद्यालय में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया जिसमें सभी आचार्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल एवं गतिविधियां आयोजित की गईं और सभी ने सांस्कृतिक गतिविधियों का आनन्द लिया |